



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1933 (श0)
(सं0 पटना 52) पटना, शुक्रवार, 3 फरवरी 2012

सं0 5/सं0 मु0 (खा बो0)—04/2011—427

उद्योग विभाग

संकल्प

24 जनवरी 2012

विषय:—बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कार्यरत सेवकों की सेवा—निवृत्ति की उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार खादी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अधीन गठित एक विकासात्मक निकाय है, जो राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रचार प्रसार में कार्यरत है। बोर्ड के स्वरूप एवं कृत्य दोनों के अनुसार यह एक वाणिज्यिक एवं व्यापारिक संस्था नहीं है। राज्य सरकार की सेवा के सभी नियम (पेंशन को छोड़कर) इस पर लागू हैं। बोर्ड के संपूर्ण स्थापना खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा खादी बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष राशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संचालन की भी अहम भूमिका बोर्ड को दी गई है। बोर्ड के पुर्नगठन के बाद इसके कार्यकलाप में सतत वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड के वर्धित कार्यों के निष्पादन के लिये कार्यबल आवश्यक है। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पूर्व से कार्यरत कर्मचारी सेवा—निवृत्त हो रहे हैं। फलतः कर्मचारियों को बोर्ड मुख्यालय के कार्यों के अतिरिक्त जिलों के कार्यों के निष्पादन का भी प्रभार दिया गया है। ऐसी स्थिति में बोर्ड के दैनन्दिनी कार्यों के सम्पादन में कठिनाई हो रही है।

(3) उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन कार्यस्थ सेवकों की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

(4) यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

(5) प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 52-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>